

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

05 जनवरी 2020

**जामिया के निश्चय ने आल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र निश्चय ने आल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 63 कि.ग्रा. वर्ग में गोल्ड मेडल जीत कर विश्वविद्यालय का नाम रौशन किया। इस वर्ग में देश भर से 175 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

फाइनल में जामिया के निश्चय ने ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह विश्वविद्यालय, राजस्थान के दीपक सिंह को हराते हुए अपनी जीत दर्ज की। इस चैंपियनशिप में देश के 26 राज्यों के 172 विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

जामिया के स्पोर्ट्स डायरेक्टर प्रोफेसर इकतेदार मोहम्मद खान ने बॉक्सर निश्चय को इस जीत पर बधाई दी। उन्होंने इस जीत को विश्वविद्यालय की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि सबसे पहले इसका श्रेय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर और जामिया के पूरे प्रशासन को जाता है।

प्रोफेसर खान ने बॉक्सर निश्चय, जामिया बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष डॉ आसिफ उमर, मैनेजर डॉ आलमगीर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सभी कर्मचारियों को इस जीत पर बधाई दी।

19 दिसंबर से 2 जनवरी तक बागपत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान पी जी कॉलेज में आयोजित आल इंडिया महिला एवं पुरुष इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019-20 में कुल 1872 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

**अहमद अजीम**

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक